

नोट
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2021

संघ लोक सेवा आयोग दिनांक 25.06.2022 से 26.06.2022 तक देशभर में सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022 आयोजित करेगा। आयोग ने प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ई-प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट (<http://upsconline.nic.in>) पर अपलोड किए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट ले लें। ई-प्रवेश पत्र को सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022 के अंतिम परिणाम की घोषणा तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस परीक्षा के लिए कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को उन्हें आबंटित परीक्षा-स्थल पर परीक्षा देने के लिए अपने ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक सत्र में शामिल होने के लिए अपना वह फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा, जिसकी संख्या का उल्लेख ई-प्रवेश पत्र में किया गया है।

यदि ई-प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है, धुंधली है या उपलब्ध नहीं है, तब उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर परीक्षा देने के लिए फोटो पहचान-पत्र और ई-प्रवेश पत्र के प्रिंटआउट सहित दो (2) समरूप फोटोग्राफ (प्रत्येक सत्र के लिए एक-एक फोटो) तथा वचनबंध (अंडरटेकिंग) साथ लाना होगा।

ई-प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की विसंगति के मामले में, आयोग को तत्काल ई-मेल के माध्यम से (ई-मेल आईडी skindo-upsc(@)gov.in पर) सूचित किया जाए, ताकि ऐसे मामले में निर्णय लिया जा सके।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए पर्याप्त समय रहते ही ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें। सभी उम्मीदवार, "उम्मीदवारों हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश" को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

यह भी नोट कर लिया जाए कि परीक्षा-स्थल पर प्रवेश, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले, अर्थात् पूर्वाह्न सत्र के लिए प्रातः 08:50 बजे तथा अपराह्न सत्र के

लिए अपराहन 01:50 बजे बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा-स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उम्मीदवारों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें उनके ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा-स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ काला बॉल पॉइंट पेन लेकर आएं क्योंकि उम्मीदवारों द्वारा उपस्थिति सूची काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरी जानी है।

परीक्षा कक्षों/हॉलों में उम्मीदवारों को केवल सामान्य या साधारण कलाई घड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति है। हालांकि, किसी ऐसी विशेष एक्सेसरी से युक्त घड़ियां जिनका संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है अथवा स्मार्ट वॉच का प्रयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है और उम्मीदवारों को परीक्षा कक्षों/हॉलों में ऐसी घड़ियां लाने की अनुमति नहीं है।

मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस अथवा पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच आदि अथवा कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण अथवा संबंधित एक्सेसरीज चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में, जिनका संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित हैं। इन अनुदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर संबंधित उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं/ चयन से विवर्जन भी शामिल है।

कीमती/ महंगे सामान तथा बैग भी परीक्षा-स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 07.06.2022